



# शामली दर्पण

**VOLUME 38**

**01/FEB/2019 TO**  
**28/FEB/2019**

# ई-पत्रिका



***E NEWSLETTER 1***

# WELCOME TO SHAMLI

पार्क में महापुरुषों की मूर्तियाँ



# स्वच्छ सर्वेक्षण 2019





# VASANT PANCHAMI

10/FEB/2019

विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना आज पूरे देशभर में बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ मनाई जा रही है। यह त्योहार हिंदू धर्म में बेहद उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी से मौसम में बदलाव आना शुरू होता है यानि कड़ाकेदार सर्दियां जाने लगती हैं और बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। खेतों में पीली सरसों लहलहाने लगती है जोकि अपने आप में बेहद खूबसूरत नजारा होता है। कहते हैं कि मौसम में बदलाव के साथ ही माहौल में भी सकारात्मकता महसूस होने लगती है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती (Devi Saraswati) की पूजा की जाती है।

इस दिन विभिन्न स्थानों पर विद्या की देवी वीणावादिनी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। विद्यार्थियों के साथ आम लोग भी मां सरस्वती की पूजा करते हैं और विद्या, बुद्धि और ज्ञान अर्जित करने की प्रार्थना करते हैं। मां सरस्वती को समर्पित इस पावन पर्व पर आप भी अपने इष्ट-मित्रों को इन शुभ सन्देशों (Messages) के माध्यम से बधाइयां (Wishes) दें-

फूलों की वर्षा,  
शरद की फुहार,  
सूरज की किरणे,  
खुशियों की बहार  
मुबारक हो आप सबको,  
बसंत पंचमी का त्योहार  
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

बहारों में बहार बसंत  
मीठा मौसम मीठी उमंग  
रंग बिरंगी उड़ती आकाश में पतंग  
तुम साथ हो तो है इस ज़िंदगी का और ही रंग  
Happy Basant Panchami



# SHIVAJI JAYANTI

19/FEB/2019

छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले (1630-1680) [भारत](#) के राजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 में [पश्चिम भारत](#) में [मराठा साम्राज्य](#) की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष [औरंगजेब](#) के [मुगल साम्राज्य](#) से संघर्ष किया। सन 1674 में [रायगढ़](#) में उनका [राज्याभिषेक](#) हुआ और छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने [समर-विद्या](#) में अनेक नवाचार किये तथा [छापामार युद्ध](#) (Gorilla War) की नयी शैली ([शिवसूत्र](#)) विकसित की। उन्होंने प्राचीन [हिन्दू](#) राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और [फारसी](#) के स्थान पर [मराठी](#) एवं [संस्कृत](#) को राजकाज की भाषा बनाया।

[भारत के स्वतन्त्रता संग्राम](#) में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवनचरित से प्रेरणा लेकर [भारत](#) की स्वतन्त्रता के लिये अपना तन, मन धन न्यौछावर कर दिया। आज उनकी राजनीति कि तर्ज पर [नेपाल](#) व [भारत](#) में [शिवसेना](#) नाम का राजनैतिक पक्ष चला आ रहा है।

सह्याद्रीच्या छाताडातून, नाद भवानी बाजे  
काळजात राहती अमुच्या, रक्तात वाहती राजे !!

तुफान गर्जतो, आण ओकतो,  
वाघ मराठी माझा !

सन्मान राखतो, जान झोकतो  
तुफानं मातीचा राजा !

'ताज महल अजर प्रेम की निशानी है'  
तो 'शिवनेरी किला' दुक शौर की कहानी है..

india.com



शिवाजी जयंती की  
हार्दिक बधाई

"अपना सर कभी ना झुकाए, इसे  
सदैव ऊँचा रखो"

- छत्रपति शिवाजी महाराज

ASABOLAR.COM



HAPPY  
SHIVAJI JAYANTI

**E NEWSLETTER 6**



# डस्टबिन में ही डालें गीला-सूखा कूड़ा



शामली नगर पालिका परिषद में बैठक में मौजूद ईओ और अधिकारी-कर्मचारी। ■ फोटो : जनवाणी

● जनवाणी संवाददाता, शामली शहर को साफ स्वच्छ बनाए रखने के संबंध में नगर पालिका परिषद सभागार में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें नगर पालिका परिषद के अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा शहर के जिम्मेदार

नागरिक भी शामिल हुए।

शुक्रवार के बैठक की अध्यक्षता करते हुए ईओ सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शहर में सभी मुख्य मार्गों पर हरे व नीले डस्टबिन लगा दिए गए हैं। इसलिए शहरवासी गीला व सूखा कूड़ा इन डस्टबिन में ही डालें।

अक्सर देखने में आता है कि शहर के लोग कूड़ा डस्टबिन में न डालकर नालियों के पास डाल देते हैं। जिससे नाली अवरूद्ध हो जाती है और इसका खामियाजा आमजन को ही उठाना पड़ता है। वहीं शहर की दीवारों पर पर्चे व पोस्टर लगाने से भी शहर की खूबसूरती बदनुमादार बन जाती है। स्वच्छ भारत स्वच्छ शामली बनाने के लिए हम सभी को आगे आकर पहल करनी होगी। नगर पालिका परिषद आगामी समय में इस प्रकार के पोस्टर बैनर लगाने वाली फर्म के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत कारवाई करेगी और पोस्टर बैनर हटवाए जाएंगे। जिससे शामली शहर साफ व स्वच्छ हो। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक आदेश सैनी वरिष्ठ लिपिक सुखपाल शर्मा, लिपिक सुभाष चंद्र, गर्जेन्द्र सिंह, अमित कुमार, आजम खान, प्रदीप ठेकेदार व लोकेंद्र ठेकेदार आदि मौजूद रहे।





# कैम्प में छूटे मतदाताओं के बने वोट



## शाहटाइम्स संवाददाता

**शामली।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बीएलओ द्वारा मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कैम्प लगाए गए। जिसमें छूटे गए मतदाताओं के मतदान के फार्म लगाए गए।

अपर जिलाधिकारी आनन्द कुमार (वित्त/राजस्व) उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरन्तर पुनरीक्षण के अन्तर्गत छूटे हुए अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल किये जाने

के लिए जनपद की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी पोलिंग स्टेशनों पर दो दिवसीय विशेष कैम्प लगाने का आयोजन किया गया। जिसमें शनिवार को नगर के मदरसा इमदादिया, चौबी इंटर कालेज सहित अन्य स्थानों पर कैम्प लगाए गए। ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनके नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं हैं, वे अपना नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-06, अपमार्जन के लिए फार्म-07, संशोधन के लिए फार्म-08, तथा एक ही विधानसभा

क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के लिए फार्म-8ए भरकर अपने सम्बन्धित बृथ लेवल अधिकारी/तहसील कार्यालय/मतदाता पंजीकरण केंद्र पर दिनांक 23.02.2019 एवं 24.02.2019 को प्रातः 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

## शहीदों को छात्रों ने दी श्रद्धांजलि

शाहटाइम्स संवाददाता

कांधला। खंड विकास क्षेत्र के गांव डांगरौल के अंग्रेजी माध्यम से संचालित प्राथमिक विद्यालय व आरती देवी मैमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई।

खंड विकास क्षेत्र के गांव डांगरौल के अंग्रेजी माध्यम से संचालित प्राथमिक विद्यालय व आरती देवी मैमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं के द्वारा संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सैनिकों पर आतंकी हमले शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा के बाद छात्र-छात्राओं ने गांव में रैली निकालकर वीर जवानों की शहादत के नारे लगाए। इस दौरान प्राथमिक



# नागरिकों के लिए रेलवे ने बंद किया लोहे का पुल

दिल्ली-शामली, सहारनपुर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के तहत शामली रेलवे स्टेशन पर लोहे के पुल को ऊंचा करने की कवायद

अमर उजाला ब्यूरो

शामली। दिल्ली-शामली, सहारनपुर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण के तहत शामली रेलवे स्टेशन पर लोहे के पुल को ऊंचा करने की कवायद शुरू हो गई है। रेलवे विभाग ब्रिज के अफसरों के निर्देश पर कर्मचारियों ने रेलवे के लोहे के पुल को ऊंचा उठाने के लिए जीने को उखाड़ने के लिए खोदाई का कार्य शुरू कर दिया है। सोमवार से ही लोहे के पुल को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है।



रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर लगा नोटिस। अमर उजाला



शामली रेलवे स्टेशन का फुटओवर ब्रिज। अमर उजाला

दिल्ली-शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग पर शाहदरा से लेकर टपरी के बीच एकमात्र शामली रेलवे स्टेशन पर लोहे का फुट ओवरब्रिज बना हुआ है। रेलवे के लोहे के फुटओवर ब्रिज की ऊंचाई 6.25 मीटर है। रेलवे बजट 2016 में दिल्ली-शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग का दोहरीकरण-विद्युतीकरण स्वीकृत किया गया था। विद्युतीकरण के लिए

पहले अंबाला डिवाजन द्वारा कार्य किया जा रहा था। विद्युतीकरण कार्य में ढिलाई बरतने के मामले अब यह कार्य दिल्ली डिवाजन को सौंपा गया है। दिल्ली डिवाजन के अफसरों द्वारा विद्युतीकरण के कार्य को अंजाम देने के लिए रेलवे के बिजली के खंभों पर तारों को सुरक्षित करने के लिए ब्रिज के रेलवे

के अफसरों ने शामली रेलवे स्टेशन पर लोहे के पुल को ऊंचा करने की कवायद शुरू कर दी है। रेलवे विभाग ने शामली रेलवे स्टेशन पर लोहे के पुल को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया है। रेलवे विभाग की ओर से नोटिस बोर्ड लगा दिया कि उत्तर रेलवे का कार्य प्रगति पर है, अस्सुविधा के लिए खेद है। रेलवे

ब्रिज संबंधी कर्मचारियों ने लोहे के पुल का जीने की खोदाई काम शुरू कर दिया है। उत्तर रेलवे के यातायात निरीक्षक सुनील धीमान ने बताया कि दिल्ली-शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग स्थित शामली रेलवे स्टेशन पर लोहे का पुल की ऊंचाई 6.25 मीटर है। विद्युतीकरण के तहत लोहे के पुल

की ऊंचाई कम होने के कारण रेलवे के लोहे के पुल को ऊंचा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्युतीकरण के तहत रेलवे पुल का ऊंचा करने के लिए रेलवे ब्लॉक लिया जाएगा। फरवरी माह में रेलवे ब्लॉक की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। रेलवे ब्लॉक की अनुमति आने के बाद शामली रेलवे स्टेशन पर भी

लोहे के पुल का ऊंचा किया जाएगा। फुट ओवरब्रिज है रेलपार बाईपास जाने के लिए रास्ता शामली। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो पुल हैं, जिनमें शामली रेलवे स्टेशन पर आम सवारियों के लिए सीमेंट के पुल हैं। रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए यात्री ज्यादातर सीमेंट के पुल

एक दिन में बनाए जाएंगे 11 अंडरपास

शामली। उत्तर रेलवे के यातायात निरीक्षक सुनील धीमान ने बताया कि दिल्ली-शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग पर दोहरीकरण के तहत रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने का काम तेजी से किया जाएगा। फरवरी माह में एक दिन में ब्लॉक लेकर दस अंडरपास का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंडरपास निर्माण के लिए क्याक की अनुमति ली जा रही है। उन्होंने बताया कि 149 रेलवे फाटक हैं, जिनमें 81 गेट प 33 बिना गेट के हैं। जिन पर 68 गेटों पर अंडरपास का काम पूरा हो चुका है। अधूरे रेलवे फाटक पर अंडरपास काम शुरू किया जाएगा। ब्यूरो

का प्रयोग करते हैं। रेलवे स्टेशन पर दूसरा लोहे का पुल है। इस पुल का उपयोग शहर की आबादी से लेकर रेलवे स्टेशन पर कालोनी में जाने के लिए उपयोग किया जाता है।







# स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्ति के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु एक मार्मिक अपील

जागो युवा जागो स्वच्छ भारत है तुम्हारा अधिकार लेकिन पहले उठाओं पहले कर्तव्य का भार

**बापू का नारा, स्वच्छ भारत हैं बनाना ।**

भूमण्डल में गूंजे गान ।

मेरा भारत देश महान ॥

फिर गूजेगा का बापू का गान ।

स्वच्छ रहे भारत का हर ग्राम ॥

कूड़ा करकट का हैं अम्बार ।

सबको मिलकर करना हैं साफ ॥

अपने कर्मों को सुधारे ।

नदियों को पवित्र बनायें ॥

स्वच्छता उन्नति का आधार हैं ।

लम्बे जीवन का सार हैं ॥

स्वच्छता आकर्षण का आधार हैं ।

स्वच्छता मोक्ष का द्वार भी हैं ॥

बच्चे बूढ़े, और जवान हैं ,

सहयोग सेतु में बंध एक साथ ।

संकल्प करे फिर एक बार ।

स्वच्छ रखेगा भारत को हर हाथ ॥

अच्छे दिनों को लाना हैं ।

भारत का मान बढ़ाना हैं ॥

**स्वच्छ भारत मिशन शामली**

**श्री सुरेंद्र सिंह**

(अधिकांश अधिकारी)

**श्रीमती अंजना बंसल**

(अध्यक्ष)

# Contact Us



: [www.fageosystems.in](http://www.fageosystems.in)



: [info@fageosystems.in](mailto:info@fageosystems.in)

**Tel/Fax** : 01204349756